



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 चैत्र 1947 (श10)
(सं0 पटना 245) पटना, मंगलवार, 8 अप्रील 2025

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना
17 मार्च 2025

सं0 1स्था0-33/2024/698 वि0स0—बिहार विधान सभा सचिवालय के अधिसूचना संख्या-888 दिनांक 19.03.2024 के क्रम में श्री पवन कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त निदेशक को “बिहार विधान सभा सचिवालय (संविदा आधारित नियोजन की पद्धतियाँ) आदेश, 2024” तथा सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-10000, दिनांक 10.07.2015 एवं परिपत्र संख्या-11398, दिनांक 23.08.2016 में किये गये प्रावधान के आलोक में संविदा के आधार पर निदेशक के पद पर दिनांक 01.04.2025 से अगले एक वर्ष यानि दिनांक 31.03.2026 तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियोजन विस्तार किया जाता है :-

- (क) यह नियोजन प्रोन्नत पद पर सरकारी सेवक की प्रोन्नति होते ही प्रोन्नति के पद पर किया गया नियोजन समाप्त कर दिया जायेगा ।
- (ख) संकल्प की कंडिका-3(2)(क)(vi) के तहत कार्यों की समीक्षा समय-समय पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं होने पर संविदा रद्द की जा सकेगी ।
- (ग) पूर्व से निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा ।

मानदेय का भुगतान सभा सचिवालय के मुख्य बजट शीर्ष के विपत्र कोड के अंतर्गत संविदा सेवायें के लिए अदायगियाँ इकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

- (घ) संकल्प की कंडिका-(4) के तहत पदीय शक्तियाँ प्राप्त रहेंगी।
- (च) संकल्प की कंडिका-(5) के तहत आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सरकारी सेवकों की भाँति क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।

अध्यक्ष बिहार विधान सभा के आदेश से,
सुधीर कुमार सिंह,
अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 245-571+10-डी0टी0पी0
Website: <https://egazette.bihar.gov.in/>